

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 865]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2019 — पौष 4, शक 1941

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 दिसम्बर 2019

आदेश

क्रमांक एफ-56-2/ तीन (दो)/ न. पा./प्राधि. अधि. नियुक्ति/2019/3452.— छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 55 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन) नियम, 1998 (यथासंशोधित 2019) के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-56-2/ तीन (दो)/ न. पा./प्राधि. अधि. नियुक्ति/2019/3425 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 को अधिक्रमित करते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में, उल्लिखित प्रकार की नगरपालिकाओं के लिए सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को पीठासीन प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को प्राधिकृत करता है :-

सारणी

क्रमांक (1)	नगरपालिका का प्रकार (2)	प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम (3)
1.	नगरपालिका परिषद्	अपर कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ सहायक कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर.
2.	नगर पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सहायक कलेक्टर/ संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर.

हस्ता./-
(जिनेविवा किण्डो)
सचिव.